

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जुलाई 2014—आषाढ़ 23, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2014

अधि. सू. 17 क्र. एफ-1-19-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् पीपलरावां, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	चार	01 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 06 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 15 बाल गंगाधर तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	एक	02 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	चार	03 महात्मागांधी वार्ड 04 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 05 सरदार भगतसिंह वार्ड 10 सुभाष चंद्र वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	दो	01 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 06 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	दो	04 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 10 सुभाष चन्द्र वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	चार	07 मो. अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 11 रविन्द्र नाथ टैगौर वार्ड 13 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल वार्ड 14 इन्दिरा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.